



13 फरवरी 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- भारतीय तेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में भारत की ईंधन मांग पिछले महीने की तुलना में लगभग 4.6% कम होकर 18.7 मिलियन टन हुई थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा कि 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- आरबीआई ने रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.25% से 6.5% कर दिया।
- चिली के केंद्रीय बैंक के अनुसार दुनिया के शीर्ष तांबा उत्पादक चिली ने जनवरी में तांबे का निर्यात 2.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक साल पहले की तुलना में 21.6% कम है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान भारत का बासमती चावल निर्यात 17 प्रतिशत बढ़ा है: एपीडा।
- चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में वॉल्यूम और मूल्य के हिसाब सुपारी का आयात

दोगुना हो गया है। भारत ने 2021-22 के पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान 25,978.98 टन की तुलना में केवल नवंबर तक 6,1452.21 टन सुपारी का आयात किया है: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री।

- भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा चालू सीजन 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान फरवरी के पहले सप्ताह के अंत तक धान की खरीद मामूली रूप से बढ़कर 66 मिलियन टन हो गई है, जो 51.4 मीट्रिक टन चावल के बराबर है।
- नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सुस्त वैश्विक मांग के कारण, अप्रैल 2022 में शुरू हुए वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान भारत से तैयार इस्पात का निर्यात आधे से अधिक हो गया। अप्रैल और जनवरी के बीच देश का इस्पात निर्यात 52.2% कम होकर 5.33 मिलियन टन हो गया जबकि नवंबर में निर्यात कर हटाकर निर्यात बढ़ाने का प्रयास विफल रहा।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.02.23	09.02.23	बदलाव (%)
जौ	2000.00	2249.50	12.48%
गुड़	1169.00	1192.00	1.97%
कपास	1612.00	1634.50	1.40%
धान	4512.00	4557.00	1.00%
कैस्टरसीड	7034.00	7050.00	0.23%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.02.23	09.02.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6097.00	6422.00	5.33%
नेचुरल गैस	201.30	208.10	3.38%
लेड	183.95	185.40	0.79%
सोना गिनी	45500.00	45785.00	0.63%
तांबा	771.40	775.90	0.58%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.02.23	09.02.23	बदलाव (%)
हल्दी	7384.00	7010.00	-5.07%
ग्वारगम	12815.00	12236.00	-4.52%
धनिया	7756.00	7464.00	-3.76%
सीसेमसीड	19565.00	18840.00	-3.71%
ग्वारसीड	6049.00	5843.00	-3.41%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.02.23	09.02.23	बदलाव (%)
निकल	2430.00	2380.00	-2.06%
एल्युमीनियम	223.30	219.10	-1.88%
मेंथा ऑयल	1014.90	1001.70	-1.30%
सोना	57543.00	56852.00	-1.2%
सोना एम	57424.00	56797.00	-1.1%

साप्ताहिक समीक्षा

दो सप्ताह की गिरावट के बाद सीआरबी इंडेक्स में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई। एनर्जी काउंटर में, कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट के रूझान के साथ कारोबार हुआ। तुर्की में कच्चे तेल की ढुलाई में व्यवधान और चीन की मांग में सुधार की उम्मीदों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। चीन की ओर से मांग में तेजी की उम्मीद से भी तेल की कीमतों को समर्थन मिला क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता ने दिसंबर में शहर-व्यापी लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर परीक्षण से जुड़ी तीन साल से अधिक की सख्त शून्य-कोविड नीति को समाप्त कर दिया। लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल के बढ़ते भंडार के कारण तेल की कीमतों में बढ़त पर रोक लग गई। तेल भंडार पिछले सप्ताह जून 2021 से 455.1 मिलियन बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में इसमें मुनाफावसूली देखने को मिली। नेचुरल गैस की सभी बढ़त समाप्त हो गई, जो केवल दो महीनों में 65% लुढ़क गई है, जिससे यह साबित होता है कि कीमतों में अभी गिरावट की संभावना बना हुई है। 2022/23 सर्दियों के दौरान असामान्य रूप से गर्म शुरुआत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य रूप से हीटिंग की मांग को काफी कम कर रही है, जिससे भंडारण से अधिक गैस की निकासी नहीं हुई है। बुलियन की तेजी थकी हुई दिखाई दी क्योंकि व्यापारियों ने फेडरल रिजर्व से मौद्रिक नीति पर आक्रामक संकेतों पर जोर दिया। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने मुद्रास्फीति के मुकाबले हाल की प्रगति को ध्यान में रखा और उन्होंने चेतावनी दी है कि एक मजबूत रोजगार बाजार और स्थिर मुद्रास्फीति दरों में अधिक वृद्धि को आमंत्रित कर सकती है। सोने की तुलना में चांदी कमजोर रही। बेस मेटल गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। प्रमुख तांबा आयातक चीन में इस साल मांग बढ़ने की उम्मीद के बावजूद, व्यापारियों ने दुनिया के बाकी हिस्सों में संभावित मंदी की चिंताओं के कारण तांबे में बिकवाली शुरू कर दी है। अमेरिका रूसी निर्मित एल्युमीनियम पर आयात शुल्क को 200% तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर मास्को पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इससे एल्युमीनियम में बिकवाली का दबाव बढ़ा। भंडार में उछाल और डॉलर में मजबूती के बाद जिंक की कीमतें तीन सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं, क्योंकि दुनिया के शीर्ष धातु उपभोक्ता द्वारा कोविड-19 नियंत्रणों को खत्म करने के बावजूद चीन में धातुओं की मांग में कमी हुई। एलएमई में जिंक स्टॉक 1989 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन चीन में बढ़ गया है। 20 जनवरी के बाद से शंघाई प्यूचर्स एक्सचेंज के साथ पंजीकृत गोदामों में भंडार दोगुनी से अधिक बढ़कर 91,616 टन हो गई है। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों लैटिन अमेरिका और अफ्रीका द्वारा आपूर्ति कम करने की संभावना को लेकर चिंता के बावजूद एलएमई में तांबा 1% गिरकर 9,039 डॉलर प्रति टन हो गया, जो 11 जनवरी के बाद से सबसे कम है।

कृषि कमोडिटीज में, मसाले मुख्य आकर्षण थे। जीरा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में बीते दिन पाला पड़ने से जीरे की कीमतों में कुछ नुकसान होने की संभावना है। कमजोर घरेलू मांग के कारण हल्दी की कीमतों पर दबाव बना रहा। बाजार पर्याप्त स्टॉक के साथ चल रहा है जिससे हाल के दिनों में नई फसल की आपूर्ति में भी सुधार हुआ है। ग्वार की कीमतों ने कच्चे तेल में तेजी को नजरअंदाज किया और कमजोर घरेलू मांग के कारण गिरावट के बंद हुई। लेकिन, प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सीमित आपूर्ति के कारण नुकसान सीमित होने की संभावना है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	03.02.23	09.02.23	(%)
जौ	जयपुर	2890.75	2889.45	-0.04%
चना	दिल्ली	5049.90	5031.20	-0.37%
धनिया	कोटा	7415.30	7256.90	-2.14%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	838.90	870.45	3.76%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1165.00	1189.00	2.06%
ग्वारसीड	जोधपुर	6092.00	5909.00	-3.00%
ग्वारगम	जोधपुर	13063.00	12498.00	-4.33%
जीरा	ऊंझा	33173.70	32357.00	-2.46%
सरसों	जयपुर	6050.00	5998.95	-0.84%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	1177.50	1170.00	-0.64%
सोयाबीन	इंदौर	5565.55	5615.85	0.90%
हल्दी	निजामाबाद	7216.40	7071.95	-2.00%
गेहूं	दिल्ली	2800.00	2800.00	0.00%
काँटन	कड़ी	29717.30	29640.05	-0.26%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2904.70	2868.80	-1.24%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	03.02.23	09.02.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2569.50	2499.00	-2.74%
तांबा	LME	नकद	8980.50	8983.00	0.03%
लेड	LME	नकद	2099.50	2126.00	1.26%
निकल	LME	नकद	28612.00	29142.00	1.85%
जिंक	LME	नकद	3413.50	3123.00	-8.51%
सोना	COMEX	मार्च	1868.30	1870.00	0.09%
चांदी	COMEX	मार्च	22.41	22.14	-1.20%
लाइट क्रूड	NYMEX	मार्च	73.39	78.06	6.36%
नेचुरल गैस	NYMEX	मार्च	2.41	2.43	0.83%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	03.02.23	09.02.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	15.15	15.19	0.26%
सोया तेल	CBOT	मार्च	59.31	59.04	-0.46%
काँटन	ICE	मार्च	85.43	85.50	0.08%
सीपीओ	BMD	मार्च	3,862.00	3,976.00	2.95%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	02.02.23 क्वांटिटी	09.02.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	17989	17669	-320
धनिया	मी.टन	876	364	-512
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	528	528	0
ग्वारगम	मी.टन	15242	15566	324
ग्वारसीड	मी.टन	20835	20095	-740
जीरा	मी.टन	1347	369	-978
मक्का	मी.टन	41	41	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	03.02.23 क्वांटिटी	09.02.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	6205	5010	-1195
तांबा	मी.टन	1542339	1279565	-262774
सोना	किग्रा	427	319	-108
सोना मिनी	किग्रा	13456	13456	0
सोना गिनी	किग्रा	47100	29500	-17600
लेड	किग्रा	837	837	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	218919	233045	14126
चांदी एम	किग्रा	40935	40935	0
जिंक	मी.टन	1960	1529	-430

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 03.02.23	स्टॉक की स्थिति 09.02.23	अंतर
एल्युमीनियम	399600	495750	96150.00
तांबा	72450	65100	-7350.00
निकल	48672	49188	516.00
लेड	20225	22175	1950.00
जिंक	16475	19425	2950.00



ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	33165.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	33750.00	33800.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7010.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7370.00	7400.00
NCDEX	ग्वारसीड	मार्च	5912.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	6270.00	6300.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मार्च	6936.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	7270.00	7300.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	48210.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	49650.00	49700.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मार्च	2740.00	30.01.23	मंदी	2890.00	-	2950.00	2970.00
MCX	मेंथा ऑयल	फरवरी	1001.70	16.01.23	मंदी	1050.00	-	1027.00	1030.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	15552.00	10.11.22	तेजी	14545.00	15150.00	-	15100.00
MCX	चांदी	मार्च	67030.00	10.11.22	तेजी	61911.00	64200.00	-	64000.00
MCX	सोना	अप्रैल	56852.00	10.11.22	तेजी	52109.00	55600.00	-	55500.00
MCX	मेटलडेक्स	फरवरी	18557.00	23.06.22	साइडवेज	17963.00	18000.00	19000.00	-
MCX	तांबा	फरवरी	775.90	09.01.23	तेजी	750.00	745.00	-	740.00
MCX	लेड	फरवरी	185.40	15.12.22	साइडवेज	185.50	180.00	192.00	-
MCX	जिंक	फरवरी	277.60	09.01.23	तेजी	275.00	262.00	-	260.00
MCX	एल्युमिनियम	फरवरी	219.10	09.01.23	तेजी	210.00	211.00	-	210.00
MCX	कच्चा तेल	फरवरी	6422.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6970.00	7000.00
MCX	नेचुरल गैस	फरवरी	208.10	19.12.22	मंदी	480.00	-	257.00	260.00

*09/02/2023 का बंद भाव

नाट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक को रूझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना को ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युद्ध को मार्किंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

तांबा (फरवरी) एमसीएक्स



तांबा (फरवरी) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 790.80

निचला स्तर: 702.20

एमसीएक्स में तांबा (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 09 फरवरी 2023 को 775.90 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 746.42 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 56.569 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

755.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 790.00 रू के टारगेट के लिए 765.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

ग्वारसीड (मार्च) एनसीडीईएक्स



ग्वारसीड (मार्च) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6531.00

निचला स्तर: 4730.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 09 फरवरी 2023 को 5912.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5912.15 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.430 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6120.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 5750.00 रू के टारगेट के लिए 6000.00 रू के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स



कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6781.00

निचला स्तर: 6007.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 09 फरवरी 2023 को 6422.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6481.93 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 56.697 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6890.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 6250.00 रू के टारगेट के लिए 6670.00 रू के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

सुस्त हाजिर मांग के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्र में मुख्य रूप से तेलंगाना में नई फसल की आवक शुरू होने से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर है। निजामाबाद में आवक का दबाव बढ़ गया है क्योंकि लगभग 6000-7000 बैग की आवक योजना हो रही है। नई फसल की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं होने के कारण मांग में कमी आई है, जबकि स्टॉक अपने पुराने स्टॉक को जारी करने में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक जिलों से भी आवक में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जिससे कीमतें दबाव में रहेंगी। लेकिन महाराष्ट्र में हल्दी के रकबे में गिरावट की खबरों से कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। हल्दी की कीमतें 6700-7500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

मिल मालिकों द्वारा सुस्त खरीदारी के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। गुजरात और राजस्थान में फसल की स्थिति में सुधार से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उद्योग के अनुमान के अनुसार जीरा का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 7.25 लाख टन के मुकाबले 6-7 लाख टन के बीच हो सकता है। कुल आपूर्ति अभी भी कम है और अधिकांश मसाला मिलों के पास स्टॉक कम है जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगेगी। नई फसल की आवक की रफ्तार जीरे में आने वाले रुझान तय करेगी। जीरा की कीमतें 30000-35500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में अधिक उत्पादन अनुमान के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। प्रमुख खरीददारों और मसाला मिलों द्वारा प्रमुख मंडियों में नई फसल की शुरुआत को देखते हुए थोक खरीद से परहेज करने के कारण मांग में कमी आई है। उद्योग के अनुमान के अनुसार धनिया का उत्पादन 180-190 लाख बैग तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें राजस्थान का लगभग 20-25 लाख बैग का योगदान हो सकता है और मध्य प्रदेश में 65-70 लाख बैग का उत्पादन होने की उम्मीद है। लेकिन जनवरी 23 के दौरान राजस्थान में अत्यधिक ठंड के कारण फसल के नुकसान की रिपोर्ट से कुल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे कीमतों में अत्यधिक गिरावट पर रोक लगेगी। धनिया की कीमतों के 6500-7900 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

मांग में सुधार के कारण एनसीडीईएक्स पर कपास वायदा(अप्रैल) की कीमतों में मिलाजुला रुझान रहने की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर कपास की सामान्य से कम आवक के कारण अधिकांश कटाई मिलों के पास स्टॉक कम है। देश के उत्तरी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गंगानगर सकल और निचले राजस्थान शामिल हैं, में कपास की आवक पिछले सीजन के 31 जनवरी तक के आंकड़ों की तुलना में कम से कम 10 लाख गांठ कम हुई है। इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस सीजन में 31 जनवरी तक 26.17 लाख गांठ की आवक हुई, जबकि पिछले सीजन की इसी अवधि में 36.84 लाख गांठ की आवक हुई थी। भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के मद्देनजर, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख गांठ कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। कपास की कीमतों के 1570-1700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

हाजिर बाजारों में सुस्त मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (मार्च) वायदा की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। पशुआहार उद्योग में मांग कम हो गई है क्योंकि जिसमें अधिकांश स्टॉक स्टोर सरसों की आपूर्ति बढ़ने के कारण खरीदारी कर रहे हैं। सरसों मील का उपयोग भारत के उत्तरी भाग में कॉटनसीडऑयल केक के विकल्प के रूप में किया जाता है। कॉटनसीडऑयल केक की आपूर्ति अधिक होने की संभावना है क्योंकि किसानों के पास बेहतर मूल्य की प्राप्ति की संभावना से कपास का भारी स्टॉक है। कीमतों के 2600-2850 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में सीमित खरीदारी के कारण ग्वारसीड (मार्च) वायदा में नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। ग्वारगम की निर्यात मांग मार्च में सीमित रहने की संभावना है जिससे प्रमुख खरीददारों की ओर ग्वारसीड की थोक खरीद से दूर रखे हुए हैं। लेकिन स्थानीय बाजार में आपूर्ति कम होने से ग्वार में नुकसान सीमित रह सकता है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक भी कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में अधिक वृद्धि की उम्मीद में रुके हुए हैं। तकनीकी तौर पर, ग्वारसीड की कीमतों को 5650 के स्तर पर सपोर्ट और निकट भविष्य में 6300 के स्तर पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है। ग्वारगम की कीमतें 11500-14000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग में बढ़ोतरी के कारण मेथा ऑयल वायदा(फरवरी) की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। मेन्थॉल की निर्यात मांग में सुधार हुआ है जिससे कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। बाजार का ध्यान प्रमुख रूप से आगामी बुवाई संख्या पर होगा क्योंकि रबी फसल की कटाई के बाद पश्चिमी यूपी में बुवाई शुरू होने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतों के 985-1040 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कीमतों को 965 के स्तर पर सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर रिकवरी देखी जा सकती है और 1030 के स्तर पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा(मार्च) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। सुस्त निर्यात मांग अभी भी अरंडी तेल व्यापारियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू स्टॉक बढ़ रहे हैं। चीन में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण जनवरी-नवंबर 22 के दौरान कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 543.4 हजार टन रह गया। अरंडी की कीमतों के 6700-7300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्पाफा

सोने की कीमतों में पिछले सप्ताह की सभी बढ़त समाप्त हो गई क्योंकि निवेशक उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर सावधान रहे। लेकिन सोने को एक मुद्रास्फीति बचाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उच्च दरें बुलियन की मांग को कम करती हैं, जो कोई ब्याज नहीं देता है। पिछले सप्ताह में, अपेक्षा से अधिक अमेरिकी नौकरियों की संख्या के कारण यह संभावना बढ़ी है कि फेड 5% से ऊपर अपने दर-वृद्धि चक्र को समाप्त कर देगा, जबकि इस वर्ष की दूसरी छमाही में दर-कटौती की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं और सोना की कीमतों में गिरावट हुई है। कारोबार अब उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में फेड की लक्ष्य दर 4.5% से 4.75% की मौजूदा सीमा से बढ़कर 5.153% हो जाएगी। रिचमंड फेड के अध्यक्ष थॉमस बाकिन ने कहा कि सख्त मौद्रिक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को असमान रूप से धीमा कर रही है, जिससे फेडरल रिजर्व को काफी सतर्कता के साथ आगे बढ़ने को विवश होना पड़ रहा है। फेड चेर जेरोम पॉवेल और कई अन्य नीति निर्माताओं द्वारा इस सप्ताह संकेत दिए जाने के बाद बाकिन की टिप्पणियां आई कि ब्याज दरों को अपेक्षा से अधिक बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। सोने की कीमतें स्थिरता के दायरे में हैं और पिछले कई दिनों से एक दिशा के लिए संघर्ष कर रही हैं। कॉमेक्स पर सोने की कीमत को 1960 डॉलर के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ रहा है, और अब सपोर्ट 1840 डॉलर के पास कारोबार कर रहा है। यदि कीमतें 1840 डॉलर से नीचे कारोबार करती हैं तो 1770 डॉलर तक गिरावट हो सकती है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 19.800-23.500 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में नरमी के रुझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है और कीमतें 54800-57900 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 63000-69500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल ने पूरे सप्ताह सकारात्मक चाल दर्ज की गई क्योंकि फेडरल रिजर्व की टिप्पणी, जिससे भविष्य में ब्याज दर में बढ़ोतरी के बारे में चिंता कम हो गई, के एक दिन बाद निवेशकों ने जोखिम के साथ अधिक सहज महसूस किया। कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण अन्य मुद्राओं को रखने वाले खरीददारों के लिए तेल सस्ता हो जाता है। फेड चेरमैन पॉवेल की टिप्पणियों के बाद जोखिम की संभावना काफी हद तक दूर हो गई, जो औद्योगिक धातुओं पर भी समान रूप से लागू होती है, जिससे आगे कीमतों में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। लेकिन भूकंप की खबर, जिसने तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, के बाद तेजी रुक गई, क्योंकि तेल के बुनियादी ढांचे गंभीर क्षति से बच गए। शुरू में इस संभावना पर तेल की कीमतों में वृद्धि हुई कि भूकंप, जिसने 19,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है, के कारण पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा होगा और वैश्विक बाजार में लंबी अवधि तक कच्चे तेल की सप्लाई बाधित रहेगी। अमेरिकी नौकरियों बेहतर रिपोर्ट के कारण आशंका बढ़ी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को आक्रामक रूप से कम करने के लिए दरों में वृद्धि जारी रखेगा, जिससे तेल और इक्विटी जैसी जोखिम वाली संपत्ति पर दबाव पड़ेगा। चीन से मजबूत मांग की संभावना ने तेल की कीमतों को कुछ समर्थन प्रदान किया, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता ने तीन साल से अधिक की सख्त शून्य-कोविड नीति को समाप्त कर दिया। इस सप्ताह में, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है और कीमतें 5850-6900 के दायरे में कारोबार कर सकती है। 2022/23 की सर्दियों की असामान्य रूप से गर्म शुरुआत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक की तुलना में हीटिंग की मांग काफी कम होने से इस साल नेचुरल गैस की कीमतों में 46% की गिरावट हुई है। इस सप्ताह कीमतें 180-220 के दायरे में कारोबार करना जारी रख सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है क्योंकि नवीनतम आपूर्ति व्यवधानों के बावजूद कमजोर वैश्विक मांग के कारण सेंटीमेंट पर दबाव रह सकता है। शीर्ष उपभोक्ता चीन की ओर से मांग में अभी तेजी आना बाकी है, जबकि वैश्विक मंदी के खतरे भी निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाल सकते हैं। जनवरी में चीन की फैक्ट्री गेट की कीमतें अपेक्षा से अधिक गिर गईं, जिससे पता चलता है कि शून्य-कोविड नीति समाप्त होने के बाद घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई, वह अधिक मांग वाले सेक्टरों को फिर से गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तांबे की कीमतें 750-780 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन की एमएमजी लिमिटेड ने कहा है कि पेरू में उसकी लास बंबास तांबे की खदान महत्वपूर्ण आपूर्ति हासिल करने में सक्षम हो गई है, जिसे सड़क अवरोधों के बाद प्रमुख कच्चे माल की आवक को रोकने के बाद कम दर पर उत्पादन जारी रखने में मदद मिली। एसएचएफई गोदामों में तांबे का भंडार बढ़ रहा है और चीन में आयात प्रीमियम कम बना हुआ है, जिससे कीमतों में तेज उछाल नहीं आ रहा है। जिक की कीमतें 260-285 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 179-190 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 205-225 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कीमतों पर दबाव रह सकता है क्योंकि अमेरिका इस सप्ताह में जल्द ही रूसी निर्मित एल्युमीनियम पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि कमोडिटी व्यापारी ग्लेनकोर ने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह ग्वांगयांग में लंदन मेटल एक्सचेंज के पंजीकृत गोदामों में 100,000 टन से अधिक एल्युमीनियम जमा किया है। सूत्रों के अनुसार, ग्लेनकोर ने अक्टूबर में भी ग्वांगयांग में एलएमई गोदामों में रूसी एल्युमीनियम की डिलीवरी की थी। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन (फरवरी) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ 45000-48000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। वैश्विक मंदी के बढ़ते जोखिम और नई इस्पात क्षमता के साथ बाहरी मांग में कमी से कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।


कपास.....सफेद सोना

मानव सभ्यता के इतिहास में कपास सबसे पुराना नेचुरल फाइबर है। आधुनिक समय में यह सबसे अधिक (लगभग 70 फीसदी) इस्तेमाल होने वाला नेचुरल फाइबर है क्योंकि सभी देशों और वर्गों के उपभोक्ता कपड़े और अनेक तरह के कामों में कपास का इस्तेमाल करते हैं। मानव जीवन में इसके बहुआयामी इस्तेमाल और महत्व के कारण ही इसे सफेद सोना कहा जाता है। इन दिनों कपास की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जिससे किसान और कारोबारी काफी लाभान्वित हुए हैं।

भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 13 फरवरी को कॉटन वायदा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू करेगा। एक्सचेंज ने अप्रैल 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाले कॉटन वायदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट विनिर्देश को संशोधित करने का निर्णय लिया है। एक्सचेंज शुरू में अप्रैल, जून और अगस्त में समाप्त होने वाले तीन कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेगा।

कॉटन वायदा कॉन्ट्रैक्ट के संशोधित स्पेशिफिकेशन इस प्रकार हैं:

	मौजूदा	संशोधित
प्रतीक	कॉटन (COTTON)	कॉटनकैंडी (COTTONCNDY)
ट्रेडिंग यूनिट	25 बेल	48 बेल
भाव यूनिट	रु. प्रति बेल (170 किग्रा की)	रु. प्रति कैंडी (355.56 किग्रा का)
अधिकतम ऑर्डर साइज	1200 बेल	576 कैंडी
टिक साइज	10 रू	20 रू
पोजिशन की अधिकतम सीमा	व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अधिकतम स्वीकार्य ओपेन पोजिशन: एक सदस्य के लिए 3,40,000 बेल सामूहिक रूप से सभी ग्राहकों के लिए: 34,00,000 बेल या बाजार के ओपेन पोजिशन का 15%, या जो भी अधिक हो। नजदीकी माह की डिलीवरी के लिए अलग-अलग ग्राहकों के लिए: 85,000 बेल। नजदीकी माह में सदस्यों के लिए पोजिशन लिमिट, व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए कुल सदस्यों के पोजिशन लिमिट के एक चौथाई के बराबर होगी।	एक सदस्य के लिए 9,600 कैंडी (20,000 बेल)। सामूहिक रूप से सभी ग्राहकों के लिए: 96,000 कैंडी (2,00,000 बेल)। महीने के करीब डिलीवरी: व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए: 2,400 कैंडी (5,000 बेल)। निकट माह में सदस्य स्तर के पोजिशन की सीमा कुल सदस्यों के पोजिशन की सीमा के एक चौथाई के बराबर होगी।
डिलीवरी यूनिट	25 बेल (42.5 क्विंटल' या 12 कैंडी लगभग) +/- 7%	48 कैंडी (लगभग 100 बेल और 170 किग्रा की प्रत्येक बेल लगभग +/- 7%)
अन्य डिलीवरी केन्द्र	यवतमाल, जालना (महाराष्ट्र), कड़ी, मुंद्रा (गुजरात), आदिलाबाद (तेलंगाना)	यवतमाल, जालना (महाराष्ट्र), कड़ी, मुंद्रा (गुजरात), आदिलाबाद (तेलंगाना)



स्रोत: यूएसडीए

भारत में कपास का उत्पादन और खपत

भारत दुनिया में कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर, 2022 से शुरू हुए मौजूदा सीजन 2022-23 में कपास के उत्पादन अनुमान को 9.25 लाख बेल घटाकर 330.50 लाख बेल कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन घटने की उम्मीद है। 1 अक्टूबर, 2022 को कपास के मौसम की शुरुआत में 31.89 लाख बेल के शुरुआती स्टॉक और 12 लाख बेल के अनुमानित आयात को ध्यान में रखते हुए, कपास सीजन 2022-23 के अंत 30 सितंबर 2023 तक कपास की आपूर्ति 374.39 लाख बेल होने का अनुमान है।

सीजन के लिए घरेलू खपत 300 लाख बेल होने का अनुमान है, जबकि निर्यात 30 लाख बेल होने का अनुमान है। सीएआई ने कहा कि कैरी-ओवर स्टॉक जो पहले 53.64 लाख बेल होने का अनुमान था, अब 44.39 लाख बेल होने का अनुमान है।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।